

3. चाँद वाली अम्मा

I. कठिन शब्द:-

1. बूढ़ी 2. अम्मा 3. झाड़ू 4. तंग 5. आसमान 6. कुँए
7. शरारत 8. रस्साकशी 9. चाँद 10. पैर

II. खाली स्थान भरो :-

1. घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता।
2. आसमान को शरारत सूझी।
3. आसमान झट से हट गया।
4. अम्मा झाड़ू सहित चाँद पर रह गई।
5. आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा।

III. शब्दों के सही अर्थ:-

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. आदत - लत | 2. रस्साकशी - आपस में खिचतानी |
| 3. शरारत - शैतानी | 4. ताकत - बल |

IV. विलोम शब्द:-

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. आसमान x धरती | 2. ऊपर x नीचे |
| 3. सही x गलत | 4. रात x दिन |
| 5. हार x जीत | 6. आज x कल |
| 7. पकड़ना x छोड़ना | |

V. समान अर्थ वाले शब्द:-

1. अम्मा - माँ

2. आकाश - आसमान

3. पुत्र - बेटा

4. पानी - जल

VI. प्रश्नों के उत्तर:-

प्र1. आपके घर में कौन क्या काम करता है?

उत्तर:- पिताजी - फल लाते हैं।

माताजी - खाना बनाती हैं।

बहन - पढ़ती हैं।

भाई - खेलता है।

प्र2. आकाश में दिखनेवाली चीजों के नाम लिखो?

उत्तर:- चाँद , बादल, सूरज, तारा ।

प्र3. अम्मा के साथ कौन-कौन रहता था?

उत्तर:- अम्मा के साथ कोई नहीं रहता था।

प्र4. अम्मा को कौन तंग करता था?

उत्तर:- अम्मा को आसमान तंग करता था।

प्र5. पानी भरने को लेकर कुँए पर क्या हुआ था?

उत्तर:- पानी भरने को लेकर कुँए पर झगड़ा हुआ था।

प्र6. बूढ़ी अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रही थी?

उत्तर:- क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू थी।

प्र7. अम्मा झाड़ू को पकड़े कहा पाहुँच गई?

उत्तर:- अम्मा झाड़ू को पकड़े चाँद पर पाहुच गई।

प्र8. किन-किन मौको पर तुम्हारे घर का सारा समान हटाकर खूब ज़ोर-शोर से सफ़ाई होती है?

उत्तर:- 1. पोंगल 2. होली 3. क्रिसमस

प्र9. घर की सफ़ाई करने के लिए कौन-कौन सी चीज काम आते हैं?

उत्तर. 1. झाड़ू 2. पोछा